

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना पवई

10 किग्रा0 अवैध गांजा व अपाची मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष पवई के पर्यवेक्षण में उ0नि0 सुनील कुमार सरोज चौकी प्रभारी मित्तपुर उ0नि0 मनोज कुमार विश्वकर्मा के द्वारा मय हमराहियान के अपराध एवं अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग व मादक पदार्थों की बरामदगी एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम देखभाल क्षेत्र करते हुए बहद ग्राम चकिया (सुलेमापुर) निर्माणाधीन हाईवे पुलिया के नीचे पहुंचे थे कि मैनुईनपुर गांव की तरफ से एक मोटर सायकिल आती हुई दिखाई दी जिसे पास आने पर रोकने का इशारा किये कि मोटर सायकिल पर सवार व्यक्तियों ने पुलिस टीम को अचानक एकाएक पीछे की तरफ मोड़कर भागने का प्रयास किये कि सड़क पर पड़े कीचड़ में मोटर सायकिल फिसल गई और मोटर सायकिल पर सवार दो व्यक्ति मोटर सायकिल सहित गिर गये कि पुलिस टीम द्वारा मोटर सायकिल से गिरे दोनों व्यक्तियों को मोटर सायकिल सहित पकड़ लिये गये। पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सुनील कुमार यादव उर्फ डब्लू यादव पुत्र तिलकधारी यादव निवासी ग्राम अम्बारी हाजीपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ बताया तथा दूसरे ने अपना नाम सूरज मौर्या S/O बाबूराम मौर्या निवासी मुत्कल्लीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ बताया दोनों के कब्जे से दो प्लास्टिक की सफेद बोरी में 10 किग्रा0 नाजायज गांजा बरामद हुआ तथा मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP62AZ9889 अपाची आरटीआर का कागजात तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहे, कारण बताकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही के क्रम में अभियुक्तगणों को समय करीब 03.25 बजे सुलेमापुर हाइवे पुलिया के पास हिरासत पुलिस में लिया गया बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 76/21 धारा 8/20 NDPS Act बनाम 1. सुनील कुमार यादव उर्फ डब्लू यादव पुत्र तिलकधारी यादव साकिन अम्बारी हाजीपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 2. सूरज मौर्या s/o बाबूराम मौर्या साकिन मुत्कल्लीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 76/21 धारा 8/20 NDPS Act

आपराधिक इतिहास –सुनील यादव के विरुद्ध

1. मु0अ0सं0 157/20 धारा 8/20 NDPS Act थाना पवई जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 76/21 धारा धारा 8/20 NDPS Act थाना पवई जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 153/17 धारा 392 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 157/18 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 583/17 धारा 379 भादवि थाना खेता सराय जनपद जौनपुर
6. मु0अ0सं0 585/17 धारा 392 भादवि थाना खेता सराय जनपद जौनपुर
7. मु0अ0सं0 1106/17 धारा 3(1)उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधि0 थाना खेता सराय जनपद जौनपुर
8. मु0अ0सं0 657/17 धारा 307,419,420,467,468,471 भादवि थाना चंदवक जनपद जौनपुर
9. मु0अ0सं0 658/17 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना चंदवक जनपद जौनपुर
10. मु0अ0सं0 136/15 धारा 406 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. सुनील कुमार यादव उर्फ डब्लू यादव पुत्र तिलकधारी यादव साकिन अम्बारी हाजीपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. सूरज मौर्या s/o बाबूराम मौर्या साकिन मुतकल्लीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

- 1.10 किग्रा0 अवैध गांजा
2. एक अदद मो0सा0 वाहन संख्या UP62AZ9889 अपाची आरटीआर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सुनील कुमार सरोज
2. उ0नि0 मनोज कुमार विश्वकर्मा
3. हे0का0 संतोष चतुर्वेदी
4. का0 संजीव यादव
5. का0 विवेक शाहू
6. का0 केशर यादव

थाना फूलपुर

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रत्नेश कुमार सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में एस0टी0एफ0 लखनऊ टीम उ0नि0 सन्तोष कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखवीर खास की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 90/21 धारा 3(1) यू0पी0 गैंग0 एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित अभि0 किशन यादव पुत्र स्व0 इन्द्रजीत यादव साकिन अताईपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ को माहुल तिराहा से आज दि0 24.06.2021 को समय 04.00 बजे प्रातः गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

सम्बन्धित मुकदमा –

मु0अ0सं0 90/21 धारा 3(1) यू0पी0 गैंग0 एक्टथाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 27/19 धारा 419,471भा0द0वि0 व 63 आबकारी अधि0 थाना फूलपुर जनपदज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 90/2021 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

किशन यादव पुत्र स्व0 इन्द्रजीत यादव साकिन अताईपुर थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि सन्तोष कुमार सिंह (एसटीएफ लखनऊ),
2. हे0का0 जावेद आलम सिद्धिकी
3. हे0का0चन्द्रप्रकाश मिश्रा
4. हे0का0 मृत्युन्जय कुमार सिंह
5. आरक्षी मुनेन्द्र सिंह
6. कमाण्डो राजकुमार